

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 469]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 नवम्बर 2015—कार्तिक 29, शक 1937

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2015

अधि.-146-क्रमांक एफ 1-18-2015-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद, मझौली, जिला सीधी के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	11 डॉ. अब्दुल कलाम वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	03	01 महात्मा गांधी वार्ड 05 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 12 इन्दिरा गांधी वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	02 पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड 04 लालबहादुर शास्त्री वार्ड 06 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 10 राजीव गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	-	-
5	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	02	01 महात्मा गांधी वार्ड 12 इन्दिरा गांधी वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	02	06 चन्द्रशेखर आजाद वार्ड 10 राजीव गांधी वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 04, 05, 06 के अलावा) आरक्षित कुल वार्ड.	04	03 विवेकानन्द वार्ड 07 पं. दीनदयाल वार्ड 01 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 14 डॉ. हेडगेवार वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 20 नवम्बर 2015

अधि.-145-क्रमांक एफ 1-19-2015-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर पालिका परिषद, मन्दसौर, जिला मन्दसौर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्डों के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	04 दशपुर वार्ड 33 नेहरू वार्ड 35 संत रविदास वार्ड 40 विवेकानन्द वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	10 प्रताप वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	10	03 गीता भवन वार्ड 13 हेमू कालानी वार्ड 18 गौतम वार्ड 20 गणपति वार्ड 26 पशुपतिनाथ वार्ड 29 कालीदास वार्ड 30 दशानन वार्ड 32 तिलक वार्ड 36 नरसिंह वार्ड 39 ऋषियानन्द वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	02	04 दशपुर वार्ड 33 नेहरू वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	-	-
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	05	20 गणपति वार्ड 26 पशुपतिनाथ वार्ड 29 कालीदास वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
			30 दशानन वार्ड
			39 ऋषियानंद वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 04, 05, 06 के अलावा) आरक्षित कुल वार्ड.	13	01 महावीर वार्ड
			02 नाहर सैय्यद वार्ड
			05 सुभाष वार्ड
			07 राजीव गांधी वार्ड
			08 सुदामा वार्ड
			09 संजय गांधी वार्ड
			14 यशोवर्धन वार्ड
			17 जीवागंज वार्ड
			19 श्रीराम वार्ड
			22 महात्मा गांधी वार्ड
			23 काटजू वार्ड
			27 पटेल वार्ड
			37 तुलसीदास वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल दिनांक 20 नवम्बर 2015

अधि.-147-क्रमांक एफ 1-20-2015-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका, सीहोर, जिला सीहोर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	06	03 कुंवर चैन सिंह वार्ड
			11 संत रविदास वार्ड
			14 सरदार पटेल वार्ड
			17 उमराव सिंह वार्ड
			20 अम्बेडकर वार्ड
			35 तिलक वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	02 रानी दुर्गावती वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	09	09 महाराणा प्रताप वार्ड
			13 चन्द्र शेखर वार्ड
			15 सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
			16 छत्रपति शिवाजी वार्ड
			18 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
			22 वाल्मिकी वार्ड
			25 चित्रगुप्त वार्ड
			30 रविन्द्रनाथ टेगोर वार्ड
			34 सरदार भगतसिंह वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	03	03 कुंवर चैन सिंह वार्ड 11 संत रविदास वार्ड 14 सरदार पटेल वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	-	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	05	09 महाराणा प्रताप वार्ड 16 छत्रपति शिवाजी वार्ड 18 लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 25 चित्रगुप्त वार्ड 30 रविन्द्रनाथ टैगोर वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 04, 05, 06 के अलावा) आरक्षित कुल वार्ड.	09	04 गुरु गोविंद सिंह वार्ड 05 डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड 06 इंदिरा गांधी वार्ड 10 जवाहर लाल नेहरू वार्ड 19 राजीव गांधी वार्ड 24 स्वामी विवेकानन्द वार्ड 27 तात्या टोपे वार्ड 31 जी. पी. पीटर्स वार्ड 32 मोलाना अब्दुल कलाम वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल दिनांक 20 नवम्बर 2015

अधि.-147-क्रमांक एफ 1-20-2015-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम 7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद्, शाहगंज, जिला सीहोर के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है:—

क्र. (1)	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया (2)	कुल वार्ड (3)	आरक्षित वार्ड के क्रमांक व नाम (4)
1	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	02	04 डॉ. अम्बेडकर वार्ड 05 महर्षि वाल्मिकी वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित कुल वार्ड	01	15 रानी दुर्गावती वार्ड
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित कुल वार्ड	04	07 छत्रपति शिवाजी वार्ड 08 सरदार बल्लभ भाई पटेल वार्ड 11 चन्द्र शेखर आजाद वार्ड 12 भगतसिंह वार्ड
4	अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	01	04 डॉ. अम्बेडकर वार्ड

(1)	(2)	(3)	(4)
5	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित वार्डों में से अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	निरंक	निरंक
6	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों में से अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड.	02	11 चन्द्र शेखर आजाद वार्ड 12 भगतसिंह वार्ड
7	महिलाओं के लिये (उक्त सरल क्रमांक 04, 05, 06 के अलावा) आरक्षित कुल वार्ड.	04	01 महात्मा गांधी वार्ड 03 देवी अहिल्या बाई वार्ड 13 डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड 14 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, उपसचिव.